

भारत-इज़रायल संबंध

प्रलिस के लयल:

इज़रायल की अवस्थलतल

मेन्स के लयल:

भारत और इज़रायल संबंघ, संबंघतल मुददे और आगे की राह

चर्चा में क्युं?

हाल ही में इज़रायल के उप-प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा कयल और इस दौरान आयोजतल द्वपकषीय बैठक में रक्षा संबंघों को प्रगाढ़ करने पर सहमतल वयक्त की ।

यात्रा के प्रमुख बढु:

- **संयुक्त घोषणा:**
 - दोनों मंत्रीयों ने इज़रायल-भारत संबंघों के 30 साल पूरे होने पर एक संयुक्त घोषणापत्र पेश कयल ।
 - यह घोषणापत्र रक्षा संबंघों को मज़बूत करने के लयल दोनों देशों की प्रतबिदधता को दोहराता है ।
- **रक्षा सहयोग पर भारत-इज़रायल वज़न:**
 - दोनों पक्षों ने भारत-इज़रायल रक्षा सहयोग, वास्तुकला के मौजूदा ढाँचे को और मज़बूत करने के लयल **रक्षा सहयोग पर भारत-इज़रायल वज़न** को अपनाया ।
- **आशय पत्र का आदान-प्रदान:**
 - भवष्य की रक्षा प्रौद्योगकलियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर एक आशय पत्र का आदान-प्रदान कयल गया ।
 - द्वपकषीय सहयोग भारत के **मेक इन इंडया** वज़न के अनुरूप होगा ।
- **सैन्य गतवधधलियों:**
 - दोनों देशों ने मौजूदा सैन्य गतवधधलियों की समीक्षा की, जनलमें **कोवडल-19 महामारी** के चुनौतलियों के बावजूद वृद्धल हुई ।
 - उन्होंने रक्षा सह-उत्पादन में भवष्य की प्रौद्योगकलियों में अनुसंधान एवं वकलस पर ध्यान केंद्रतल करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की ।
- **पारस्परकल सुरक्षा चुनौतलियों की सवीकृतल:**
 - दोनों मंत्रीयों ने कई सामरकल और रक्षा मुददों पर आपसी सुरक्षा चुनौतलियों एवं उनके अभसरण को सवीकार कयल ।
 - उन्होंने सभी मंघों पर सहयोग बढ़ाने के लयल मललकर काम करने की प्रतबिदधता वयक्त की ।



भारत-इज़रायल संबंध:

राजनयिक गठबंधन:

- हालाँकि भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी, 1992 को स्थापित हुए। दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र के 164 सदस्य देशों में से एक था, जिसके इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध थे।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- वर्ष 1992 में द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2020- फरवरी 2021 की अवधि के दौरान 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) हो गया, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।
 - हीरे का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।
- भारत एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
 - इज़रायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रयिल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- भारत एक मुक्त व्यापार समझौता के समापन के लिये इज़रायल के साथ भी बातचीत कर रहा है।

रक्षा:

- भारत, इज़रायल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो बदले में रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है।
- भारतीय सशस्त्र बलों ने पछिले कुछ वर्षों में इज़रायली हथियार प्रणालियों की एक वसित शृंखला को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिसमें फाल्कन 'AWACS' (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) और हेरॉन, सर्चर-II व हारोप ड्रोन, बराक एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं सपाइडर क्विक-रिक्शन एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
- इस अधिग्रहण में कई इज़रायली मिसाइलें और सटीक-नरिदेशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिसमें पायथन तथा डर्बी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर क्रिस्टल मेज़ (Crystal Maze) एवं सपाइस-2000 बम (Spice-2000 Bombs) शामिल हैं।
- भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक 10 वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

कृषि में सहयोग:

- मई 2021 में कृषि विकास में सहयोग के लिये "तीन वर्ष के कार्य समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, सीओई की मूल्य शृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और नज्दी क्क्षेत्र की कंपनियों व सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

■ वजिज्ञान प्रौद्योगिकी:

- हाल ही में भारत और इज़रायल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं शासी नकियाय की बैठक में भारत-इज़रायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार-विमर्श किया।
- उन्होंने 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 3 संयुक्त रसिर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इज़रायल सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपायों का सुझाव दिया गया।
- I4F 'प्रमुख क्क्षेत्रों' में चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत और इज़रायल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने एवं समर्थन करने हेतु दोनों देशों के बीच एक सहयोग है।

■ अन्य:

- इज़रायल, भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में भी शामिल हो रहा है, जो दोनों देशों के ऊर्जा क्क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी के उद्देश्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से संरेखित है।

आगे की राह

- मुख्य रूप से साझा रणनीतिक हितों और सुरक्षा खतरों के चलते दोनों देशों के बीच संबंधों में वर्ष 1992 से मज़बूती देखी गई।
- भारतीय लोग इज़रायल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सरकार अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपनी [पश्चिम एशिया नीति](#) को संतुलित एवं पुनर्गठित कर रही है।
- भारत और इज़रायल को अपने धार्मिक चरमपंथी पड़ोसियों की भेद्यता को दूर करने तथा जलवायु परिवर्तन, जल की कमी, जनसंख्या वस्फोट एवं भोजन की कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।
- अधिक आक्रामक और सक्रिय मध्य-पूर्वी नीतिसमय की मांग है ताकि भारत [अब्राहम एकरड](#) द्वारा धीरे-धीरे लाए जा रहे भू-राजनीतिक पुनर्गठन का अधिकतम लाभ उठा सके।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-israel-relations-2>

